



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

7 चैत्र 1941 (श10)

(सं0 पटना 493) पटना, वृहस्पतिवार, 28 मार्च 2019

निर्वाचन विभाग

अधिसूचना

28 मार्च 2019

सं0 एम०-1-007/2019-18—लोक सभा आम निर्वाचन, 2019 के अवसर पर 7—झंझारपुर, 8—सुपौल, 9—अररिया, 13—मधेपुरा एवं 25—खगड़िया संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के निर्वाचन से संबंधित विधि और न्याय मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 28.03.2019 एवं भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली की अधिसूचना संख्या-464/ईपीएस/2019(3) दिनांक 28.03.2019 सर्वसाधारण की जानकारी के लिए पुनः प्रकाशित की जाती है।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
प्रवीण कुमार गुप्ता,
संयुक्त सचिव—सह—
संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार।

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख 28 मार्च, 2019/ चैत्र 7, 1941 (शक)

का0आ0.....(अ).--सोलहवीं लोकसभा की अवधि के अवसान पर नई लोकसभा के गठन के प्रयोजन के लिए सधारण निर्वाचन कराने का विनिश्चय किया गया है;

अतः, अब, राष्ट्रपति, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 14 की उपधारा (2) के अनुसरण में, नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों, जो उक्त सारणी के स्तंभ (1) में यथा विनिर्दिष्ट तत्स्थानी असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, जम्मू-कश्मीर, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, दमन और दीव तथा दादरा और नागर हवेली, यथास्थिति, राज्यों या संघ राज्यक्षेत्रों में स्थित हैं, से उक्त अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों तथा किए गए आदेशों के अनुसार सदस्यों का निर्वाचन करने की अपेक्षा करते हैं:-

राज्य	संसदीय निर्वाचन क्षेत्र
(1)	(2)
असम	4-धुब्री 5-कोक्राझाड़ (अ.ज.जा.) 6-बारपेटा 7-गौहाटी
बिहार	7-झंझारपुर 8-सुपौल 9-अररिया 13-मधेपुरा 25-खगड़िया
छत्तीसगढ़	1-सरगुजा (अ.ज.जा.) 2-रायगढ़ (अ.ज.जा.) 3-जांजगीर-चांपा (अ.जा.) 4-कोरबा 5-बिलासपुर 7-दुर्ग 8-रायपुर

राज्य	संसदीय निर्वाचन क्षेत्र
(1)	(2)
गोवा	1-उत्तर गोवा 2-दक्षिण गोवा
गुजरात	1-कच्छ (अ.जा.) 2-बनासकांठा 3-पाटण 4-मेहसाणा 5-साबरकांठा 6-गांधीनगर 7-अहमदाबाद पूर्व 8-अहमदाबाद पश्चिम (अ.जा.) 9-सुरेन्द्रनगर 10-राजकोट 11-पोरबंदर 12-जामनगर 13-जुनागढ़ 14-अमरेली 15-भावनगर 16-आणंद 17-खेड़ा 18-पंचमहाल 19-दाहोद (अ.ज.जा.) 20-बड़ोदरा 21-छोटा उदेपुर (अ.ज.जा.) 22-भरूच 23-बारडोली (अ.ज.जा.) 24-सुरत 25-नवसारी 26-वलसाड (अ.ज.जा.)
जम्मू-कश्मीर	3-अनन्तनाग
कर्नाटक	1-चिक्कोडी

राज्य	संसदीय निर्वाचन क्षेत्र
(1)	(2)
कर्नाटक	2-बेलगाम 3-बागलकोट 4-बीजापुर (अ.जा.) 5-गुलबर्गा (अ.जा.) 6-रायचूर (अ.ज.जा.) 7-बीदर 8-कोप्पल 9-बेल्लारी (अ.ज.जा.) 10-हावेरी 11-धारवाड़ 12-उत्तर कन्नड 13-दावन्गोरे 14-शिमोगा
केरल	1-कासरागोड 2-कन्नूर 3-वडकरा 4-वयनाड 5-कोझीकोड 6-मलप्पुरम 7-पोन्नानी 8-पालक्काड 9-अलथूर (अ.जा.) 10-त्रिस्सूर 11-चालाकुडी 12-एरनाकुलम 13-इडुक्की 14-कोट्टयम 15-अलप्पुझा 16-मावेलीक्करा (अ.जा.) 17-पथनमथीट्टा

राज्य	संसदीय निर्वाचन क्षेत्र
(1)	(2)
केरल	18-कोल्लम 19-अट्टिंगल 20-तिरुवनन्तपुरम
महाराष्ट्र	3-जलगांव 4-रावेर 18-जालना 19-औरंगाबाद 32-रायगड 34-पुणे 35-बारामती 37-अहमदनगर 43-माधा 44-सांगली 45-सतारा 46-रत्नागिरी-सिंधुदूर्ग 47-कोल्हापुर 48-हातकणंगले
ओडिशा	3-सम्बलपुर 4-क्योन्झर (अ.ज.जा.) 9-धेन्कानल 14-कटक 17-पुरी 18-भुवनेश्वर
उत्तर प्रदेश	6-मुरादाबाद 7-रामपुर 8-सम्भल 20-फिरोज़ाबाद 21-मैनपुरी 22-एटा 23-बदायूं

राज्य	संसदीय निर्वाचन क्षेत्र
(1)	(2)
उत्तर प्रदेश	24-ऑवला 25-बरेली 26-पीलीभीत
पश्चिम बंगाल	6-बालूरघाट 7-माल्दहा उत्तर 8-माल्दहा दक्षिण 9-जंगीपुर 11-मुर्शिदाबाद
दमन एवं दीव	1-दमन और दीव
दादरा और नागर हवेली	1-दादरा और नगर हवेली (अ.ज.जा.)

(फा. सं. एच-11024(1)/2019-विधायी.2)

(के. बिस्वाल)

अपर सचिव, भारत सरकार ।

**GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF LAW AND JUSTICE
(Legislative Department)
NOTIFICATION**

New Delhi, the 28th March, 2019/Chaitra 7, 1941 (SAKA).

S.O. (E).— Whereas it has been decided to hold a general election for the purpose of constituting a new House of the People, on the expiration of the term of Sixteenth House of the People;

Now, therefore, in pursuance of sub-section (2) of section 14 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the President is pleased to call upon the Parliamentary constituencies, specified, in column (2) of the Table given below comprised within the corresponding States or Union Territories, as the case may be, of Assam, Bihar, Chhattisgarh, Goa, Gujarat, Jammu & Kashmir, Karnataka, Kerala, Maharashtra, Odisha, Uttar Pradesh, West Bengal, Daman & Diu and Dadra & Nagar Haveli as specified in column (1) of the said Table, to elect the Members in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder:

STATE	PARLIAMENTARY CONSTITUENCY
(1)	(2)
ASSAM	4-Dhubri
	5-Kokrajhar (ST)
	6-Barpeta
	7-Gauhati

STATE	PARLIAMENTARY CONSTITUENCY
(1)	(2)
BIHAR	7-Jhanjharpur
	8-Supaul
	9-Araria
	13-Madhepura
	25-Khagaria
CHHATTISGARH	1-Surguja (ST)
	2-Raigarh (ST)
	3-Janjgir-Champa (SC)
	4-Korba
	5-Bilaspur
	7-Durg
	8-Raipur
GOA	1-North Goa
	2-South Goa
GUJARAT	1-Kachchh (SC)
	2-Banaskantha
	3-Patan
	4-Mahesana
	5-Sabarkantha
	6-Gandhinagar
	7-Ahmedabad East
	8-Ahmedabad West (SC)
	9-Surendranagar
	10-Rajkot
	11-Porbandar
	12-Jamnagar
	13-Junagadh
	14-Amreli
	15-Bhavnagar
	16-Anand
	17-Kheda
	18-Panchmahal
	19-Dahod (ST)
	20-Vadodara
	21-Chhota Udaipur (ST)
	22-Bharuch
	23-Bardoli (ST)
	24-Surat
	25-Navsari
	26-Valsad (ST)
JAMMU & KASHMIR	3-Anantnag
KARNATAKA	1-Chikkodi
	2-Belgaum
	3-Bagalkot
	4-Bijapur (SC)

STATE	PARLIAMENTARY CONSTITUENCY	
(1)	(2)	
KARNATAKA	5-Gulbarga (SC)	
	6-Raichur (ST)	
	7-Bidar	
	8-Koppal	
	9-Bellary (ST)	
	10-Haveri	
	11-Dharwad	
	12-Uttara Kannada	
	13-Davanagere	
	14-Shimoga	
	KERALA	1-Kasaragod
		2-Kannur
		3-Vadakara
		4-Wayanad
5-Kozhikode		
6-Malappuram		
7-Ponnani		
8-Palakkad		
9-Alathur (SC)		
10-Thrissur		
11-Chalakydy		
12-Ernakulam		
13-Idukki		
14-Kottayam		
15-Alappuzha		
16-Mavelikkara (SC)		
17-Pathanamthitta		
18-Kollam		
19-Attingal		
20-Thiruvananthapuram		
MAHARASHTRA	3-Jalgaon	
	4-Raver	
	18-Jalna	
	19-Aurangabad	
	32-Raigad	
	34-Pune	
	35-Baramati	
	37-Ahmednagar	
	43-Madha	
	44-Sangli	
	45-Satara	
	46-Ratnagiri-Sindhudurg	
	47-Kolhapur	
	48-Hatkanangle	
ODISHA	3-Sambalpur	

STATE	PARLIAMENTARY CONSTITUENCY
(1)	(2)
ODISHA	4-Keonjhar (ST)
	9-Dhenkanal
	14-Cuttack
	17-Puri
	18-Bhubaneswar
UTTAR PRADESH	6-Moradabad
	7-Rampur
	8-Sambhal
	20-Firozabad
	21-Mainpuri
	22-Etah
	23-Badaun
	24-Aonla
	25-Bareilly
	26-Pilibhit
WEST BENGAL	6-Balurghat
	7-Maldaha Uttar
	8-Maldaha Dakshin
	9-Jangipur
	11-Murshidabad
DAMAN & DIU	1-Daman & Diu
DADRA & NAGAR HAVELI	1-Dadra & Nagar Haveli (ST)

[F. No. H-11024(1)/2019-Leg.II]

(K. Biswal)

Additional Secretary to the Government of India.

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली -110001, दिनांक 28 मार्च, 2019/7 चैत्र, 1941 (शक)

सं. 464/ईपीएस/2019(3)—यतः, भारत के राष्ट्रपति द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 14 की उपधारा(2) के अंतर्गत जारी अधिसूचना जिसे भारत के राजपत्र में 28 मार्च, 2019 (गुरुवार) में प्रकाशित करवाया गया, के द्वारा, नीचे दी गई अनुसूची में स्तंभ (1) में उल्लिखित राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में उक्त अनुसूची के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से यह अपेक्षा की गई है कि उक्त अधिनियम के प्रावधानों और उसके अंतर्गत नियमों और किए गए आदेशों के अनुसार लोक सभा के लिए सदस्य निर्वाचित कर दिए जाएं;

2. अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 30 और 56 के अनुसरण में, निर्वाचन आयोग एतद्वारा-

(अ) उक्त निर्वाचन के सम्बन्ध में उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्रत्येक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए निम्नलिखित निर्धारित करता है:

(क) नाम निर्देशन करने की अंतिम तारीख - 4 अप्रैल, 2019 (गुरुवार)

(ख) नाम निर्देशन की संवीक्षा की तारीख - 5 अप्रैल, 2019 (शुक्रवार)

(ग) अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अंतिम तारीख - 8 अप्रैल, 2019 (सोमवार)

(घ) नीचे की अनुसूची के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट तारीख को ऐसी तारीख के रूप में निर्धारित करता है जिसको यदि आवश्यक हुआ तो, उक्त अनुसूची के कॉलम (2) में तदनुसूची प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान होगा; और

(ङ) ऐसी तारीख जिससे पहले उपर्युक्त सभी संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में निर्वाचन सम्पन्न हो जाएगा - 27 मई, 2019 (सोमवार); और

(आ) उक्त अनुसूची के कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट समय को, ऐसे समय के रूप में नियत करता है जिसके दौरान, यदि आवश्यक हुआ तो उक्त अनुसूची के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट तदनुसूची प्रविष्टि के अनुसार निर्वाचन क्षेत्रों में, उपर्युक्त निर्वाचन के लिए, इसके कॉलम (3) में ऐसे निर्वाचन क्षेत्र के सामने विनिर्दिष्ट तारीख को मतदान होगा।

अनुसूची

संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, मतदान की तारीख एवं समय

चरण-III

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	संसदीय निर्वाचन क्षेत्र / विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का सेगमेंट	मतदान की तारीख	मतदान का समय
(1)	(2)	(3)	(4)
असम	4-धुब्री	23 अप्रैल, 2019 (मंगलवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 05:00 बजे तक
	5-कोक्राझाड़(अ.ज.जा.)	23 अप्रैल, 2019 (मंगलवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 05:00 बजे तक
	6-बारपेटा	23 अप्रैल, 2019 (मंगलवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 05:00 बजे तक
	7-गौहाटी	23 अप्रैल, 2019 (मंगलवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 05:00 बजे तक

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	संसदीय निर्वाचन क्षेत्र / विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का सेगमेंट	मतदान की तारीख	मतदान का समय
(1)	(2)	(3)	(4)
बिहार	7- झंझारपुर	23 अप्रैल, 2019 (मंगलवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक
	8-सुपौल	23 अप्रैल, 2019 (मंगलवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक
	9-अररिया	23 अप्रैल, 2019 (मंगलवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक
	13- मधेपुरा	23 अप्रैल, 2019 (मंगलवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक
	25- खगड़िया	23 अप्रैल, 2019 (मंगलवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक
छत्तीसगढ़	1-सरगुजा (अ.ज.जा) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र		
	8-सामरी (अ.ज.जा.) वि.स.नि.क्षे.	23 अप्रैल, 2019 (मंगलवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 03:00 बजे तक (मतदान केन्द्र सं. 124 चुन्चुना और मतदान केन्द्र सं. 125 पुन्नाग के लिए) पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक (शेष मतदान केन्द्रों के लिए)
	4-प्रेमनगर वि.स.नि.क्षे.	23 अप्रैल, 2019 (मंगलवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 05:00 बजे तक
	5-भटगांव वि.स.नि.क्षे.	23 अप्रैल, 2019 (मंगलवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 05:00 बजे तक
	6-प्रतापपुर (अ.ज.जा.) वि.स.नि.क्षे.	23 अप्रैल, 2019 (मंगलवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 05:00 बजे तक
	7-रामानुजगंज (अ.ज.जा.) वि.स.नि.क्षे.	23 अप्रैल, 2019 (मंगलवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 05:00 बजे तक
	9-लुण्ड्रा (अ.ज.जा.) वि.स.नि.क्षे.	23 अप्रैल, 2019 (मंगलवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 05:00 बजे तक
	10-अम्बिकापुर वि.स.नि.क्षे.	23 अप्रैल, 2019 (मंगलवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 05:00 बजे तक
	11-सीतापुर (अ.ज.जा.) वि.स.नि.क्षे.	23 अप्रैल, 2019 (मंगलवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 05:00 बजे तक
	2-रायगढ़ (अ.ज.जा.)	23 अप्रैल, 2019 (मंगलवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 05:00 बजे तक

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	संसदीय निर्वाचन क्षेत्र / विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का सेगमेंट	मतदान की तारीख	मतदान का समय
(1)	(2)	(3)	(4)
छत्तीसगढ़	3-जांजगीर-चांपा (अ.जा.)	23 अप्रैल, 2019 (मंगलवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 05:00 बजे तक
	4-कोरबा	23 अप्रैल, 2019 (मंगलवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 05:00 बजे तक
	5-बिलासपुर	23 अप्रैल, 2019 (मंगलवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 05:00 बजे तक
	7-दुर्ग	23 अप्रैल, 2019 (मंगलवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 05:00 बजे तक
	8-रायपुर	23 अप्रैल, 2019 (मंगलवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 05:00 बजे तक
गोवा	1-उत्तर गोवा	23 अप्रैल, 2019 (मंगलवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक
	2- दक्षिण गोवा	23 अप्रैल, 2019 (मंगलवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक
गुजरात	1-कच्छ (अ.जा.)	23 अप्रैल, 2019 (मंगलवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक
	2-बनासकांठा	23 अप्रैल, 2019 (मंगलवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक
	3-पाटण	23 अप्रैल, 2019 (मंगलवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक
	4-महेसाणा	23 अप्रैल, 2019 (मंगलवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक
	5-साबरकांठा	23 अप्रैल, 2019 (मंगलवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक
	6-गांधीनगर	23 अप्रैल, 2019 (मंगलवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक
	7-अहमदाबाद पूर्व	23 अप्रैल, 2019 (मंगलवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक
	8-अहमदाबाद पश्चिम (अ.जा.)	23 अप्रैल, 2019 (मंगलवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक
	9-सुरेन्द्रनगर	23 अप्रैल, 2019 (मंगलवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक
	10-राजकोट	23 अप्रैल, 2019 (मंगलवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक
	11-पोरबंदर	23 अप्रैल, 2019 (मंगलवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	संसदीय निर्वाचन क्षेत्र / विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का सेगमेंट	मतदान की तारीख	मतदान का समय
(1)	(2)	(3)	(4)
गुजरात	12-जामनगर	23 अप्रैल, 2019 (मंगलवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक
	13-जुनागढ़	23 अप्रैल, 2019 (मंगलवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक
	14-अमरेली	23 अप्रैल, 2019 (मंगलवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक
	15-भावनगर	23 अप्रैल, 2019 (मंगलवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक
	16-आणंद	23 अप्रैल, 2019 (मंगलवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक
	17-खेडा	23 अप्रैल, 2019 (मंगलवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक
	18-पंचमहाल	23 अप्रैल, 2019 (मंगलवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक
	19-दाहोद (अ.ज.जा.)	23 अप्रैल, 2019 (मंगलवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक
	20-बडोदरा	23 अप्रैल, 2019 (मंगलवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक
	21-छोटा उदपुर (अ.ज.जा.)	23 अप्रैल, 2019 (मंगलवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक
	22-भरूच	23 अप्रैल, 2019 (मंगलवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक
	23-बारडोली (अ.ज.जा.)	23 अप्रैल, 2019 (मंगलवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक
	24-सुरत	23 अप्रैल, 2019 (मंगलवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक
	25- नवसारी	23 अप्रैल, 2019 (मंगलवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक
26- वलसाड (अ.ज.जा.)	23 अप्रैल, 2019 (मंगलवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक	
जम्मू एवं कश्मीर	3-अनन्तनाग संसदीय निर्वाचन क्षेत्र		
	अनन्तनाग जिले में आने सभी मतदान केन्द्रों में	23 अप्रैल, 2019 (मंगलवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक
	कुलगाम जिले में आने सभी मतदान केन्द्रों में	29 अप्रैल, 2019 (सोमवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	संसदीय निर्वाचन क्षेत्र / विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का सेगमेंट	मतदान की तारीख	मतदान का समय
(1)	(2)	(3)	(4)
जम्मू एवं कश्मीर	शोपियां और पुलवामा जिलों में आने सभी मतदान केन्द्रों में	06 मई, 2019 (सोमवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक
कर्नाटक	1-चिक्कोडी	23 अप्रैल, 2019 (मंगलवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक
	2-बेलगाम	23 अप्रैल, 2019 (मंगलवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक
	3-बागलकोट	23 अप्रैल, 2019 (मंगलवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक
	4-बीजापुर (अ.जा.)	23 अप्रैल, 2019 (मंगलवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक
	5-गुलबर्गा (अ.जा.)	23 अप्रैल, 2019 (मंगलवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक
	6-रायचूर (अ.ज.जा.)	23 अप्रैल, 2019 (मंगलवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक
	7-बीदर	23 अप्रैल, 2019 (मंगलवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक
	8-कोप्पल	23 अप्रैल, 2019 (मंगलवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक
	9-बेल्लारी (अ.ज.जा.)	23 अप्रैल, 2019 (मंगलवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक
	10-हावेरी	23 अप्रैल, 2019 (मंगलवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक
	11-धारवाड	23 अप्रैल, 2019 (मंगलवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक
	12-उत्तर कन्नड	23 अप्रैल, 2019 (मंगलवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक
	13-दावन्नेरे	23 अप्रैल, 2019 (मंगलवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक
	14-शिमोगा	23 अप्रैल, 2019 (मंगलवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक
केरल	1-कासरागोड	23 अप्रैल, 2019 (मंगलवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक
	2-कन्नूर	23 अप्रैल, 2019 (मंगलवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक
	3-वडकरा	23 अप्रैल, 2019 (मंगलवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	संसदीय निर्वाचन क्षेत्र / विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का सेगमेंट	मतदान की तारीख	मतदान का समय
(1)	(2)	(3)	(4)
केरल	4-वयनाड	23 अप्रैल, 2019 (मंगलवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक
	5-कोझीकोड	23 अप्रैल, 2019 (मंगलवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक
	6-मलप्पुरम	23 अप्रैल, 2019 (मंगलवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक
	7-पोन्नानी	23 अप्रैल, 2019 (मंगलवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक
	8-पालक्काड	23 अप्रैल, 2019 (मंगलवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक
	9-अलथूर (अ.जा)	23 अप्रैल, 2019 (मंगलवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक
	10-त्रिस्सूर	23 अप्रैल, 2019 (मंगलवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक
	11-चालाकुडी	23 अप्रैल, 2019 (मंगलवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक
	12-एरनाकुलम	23 अप्रैल, 2019 (मंगलवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक
	13-इडुक्की	23 अप्रैल, 2019 (मंगलवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक
	14-कोट्टयम	23 अप्रैल, 2019 (मंगलवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक
	15-अलप्पुत्ता	23 अप्रैल, 2019 (मंगलवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक
	16-मावेलीक्करा (अ.जा)	23 अप्रैल, 2019 (मंगलवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक
	17-पथनमथीट्टा	23 अप्रैल, 2019 (मंगलवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक
	18-कोल्लम	23 अप्रैल, 2019 (मंगलवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक
	19-अट्टिगल	23 अप्रैल, 2019 (मंगलवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक
	20-तिरुवनन्तपुरम	23 अप्रैल, 2019 (मंगलवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	संसदीय निर्वाचन क्षेत्र / विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का सेगमेंट	मतदान की तारीख	मतदान का समय
(1)	(2)	(3)	(4)
महाराष्ट्र	3-जलगांव	23 अप्रैल, 2019 (मंगलवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक
	4-रावेर	23 अप्रैल, 2019 (मंगलवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक
	18-जालना	23 अप्रैल, 2019 (मंगलवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक
	19-औरंगाबाद	23 अप्रैल, 2019 (मंगलवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक
	32-रायगढ़	23 अप्रैल, 2019 (मंगलवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक
	34- पुणे	23 अप्रैल, 2019 (मंगलवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक
	35- बारामती	23 अप्रैल, 2019 (मंगलवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक
	37- अहमदनगर	23 अप्रैल, 2019 (मंगलवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक
	43- माघा	23 अप्रैल, 2019 (मंगलवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक
	44- सांगली	23 अप्रैल, 2019 (मंगलवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक
	45- सतारा	23 अप्रैल, 2019 (मंगलवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक
	46-रत्नागिरी-सिंधुदूर्ग	23 अप्रैल, 2019 (मंगलवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक
	47-कोल्हापुर	23 अप्रैल, 2019 (मंगलवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक
	48-हातकणंगले	23 अप्रैल, 2019 (मंगलवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक
ओडिशा	3- सम्बलपुर, संसदीय निर्वाचन क्षेत्र		
	15-कुचिन्दा (अ.ज.जा.) वि.स.नि.क्षे.	23 अप्रैल, 2019 (मंगलवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 04:00 बजे तक
	18-रैराखोल वि.स.नि.क्षे.	23 अप्रैल, 2019 (मंगलवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 04:00 बजे तक
	19- देवगढ़ वि.स.नि.क्षे.	23 अप्रैल, 2019 (मंगलवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 04:00 बजे तक

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	संसदीय निर्वाचन क्षेत्र / विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का सेगमेंट	मतदान की तारीख	मतदान का समय
(1)	(2)	(3)	(4)
ओडिशा	63- अठमल्लिक वि.स.नि.क्षे.	23 अप्रैल, 2019 (मंगलवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 04:00 बजे तक
	16- रेंगली (अ.जा.) वि.स.नि.क्षे.	23 अप्रैल, 2019 (मंगलवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक
	17- सम्बलपुर वि.स.नि.क्षे.	23 अप्रैल, 2019 (मंगलवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक
	62- छेन्दीपाडा (अ.जा.) वि.स.नि.क्षे.	23 अप्रैल, 2019 (मंगलवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक
4- क्योन्झर (अ.ज.जा) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र			
	25- चम्पुआ वि.स.नि.क्षे.	23 अप्रैल, 2019 (मंगलवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 04:00 बजे तक
	20- तेलकोई (अ.ज.जा.) वि.स.नि.क्षे.	23 अप्रैल, 2019 (मंगलवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक
	21- घासीपुरा वि.स.नि.क्षे.	23 अप्रैल, 2019 (मंगलवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक
	22- आनन्दपुर (अ.जा.) वि.स.नि.क्षे.	23 अप्रैल, 2019 (मंगलवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक
	23- पटना (अ.ज.जा.) वि.स.नि.क्षे.	23 अप्रैल, 2019 (मंगलवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक
	24-क्योन्झर (अ.ज.जा.) वि.स.नि.क्षे.	23 अप्रैल, 2019 (मंगलवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक
	30- करांजिया (अ.ज.जा.) वि.स.नि.क्षे.	23 अप्रैल, 2019 (मंगलवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक
9-धेन्कानल, संसदीय निर्वाचन क्षेत्र			
	59- पल्लाहारा वि.स.नि.क्षे.	23 अप्रैल, 2019 (मंगलवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 04:00 बजे तक
	61- अंगुल वि.स.नि.क्षे.	23 अप्रैल, 2019 (मंगलवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 04:00 बजे तक
	55- धेन्कानल वि.स.नि.क्षे.	23 अप्रैल, 2019 (मंगलवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक
	56- हिन्डोल (अ.जा.) वि.स.नि.क्षे.	23 अप्रैल, 2019 (मंगलवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक
	57- कामाख्यानगर वि.स.नि.क्षे.	23 अप्रैल, 2019 (मंगलवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक
	58- परजंगा वि.स.नि.क्षे.	23 अप्रैल, 2019 (मंगलवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	संसदीय निर्वाचन क्षेत्र / विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का सेगमेंट	मतदान की तारीख	मतदान का समय
(1)	(2)	(3)	(4)
ओडिशा	60- तालचेर वि.स.नि.क्षे.	23 अप्रैल, 2019 (मंगलवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक
	14-कटक	23 अप्रैल, 2019 (मंगलवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक
	17-पुरी	23 अप्रैल, 2019 (मंगलवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक
	18-भुवनेश्वर	23 अप्रैल, 2019 (मंगलवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक
उत्तर प्रदेश	6-मुरादाबाद	23 अप्रैल, 2019 (मंगलवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक
	7-रामपुर	23 अप्रैल, 2019 (मंगलवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक
	8-सम्भल	23 अप्रैल, 2019 (मंगलवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक
	20-फिरोज़ाबाद	23 अप्रैल, 2019 (मंगलवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक
	21-मैनपुरी	23 अप्रैल, 2019 (मंगलवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक
	22-एटा	23 अप्रैल, 2019 (मंगलवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक
	23-बदायूं	23 अप्रैल, 2019 (मंगलवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक
	24-औंखला	23 अप्रैल, 2019 (मंगलवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक
	25-बरेली	23 अप्रैल, 2019 (मंगलवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक
	26-पीलीभीत	23 अप्रैल, 2019 (मंगलवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक
पश्चिम बंगाल	6-बालूरघाट	23 अप्रैल, 2019 (मंगलवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक
	7-माल्दहा उत्तर	23 अप्रैल, 2019 (मंगलवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक
	8-माल्दहा दक्षिण	23 अप्रैल, 2019 (मंगलवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक
	9-जंगीपुर	23 अप्रैल, 2019 (मंगलवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	संसदीय निर्वाचन क्षेत्र / विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का सेगमेंट	मतदान की तारीख	मतदान का समय
(1)	(2)	(3)	(4)
पश्चिम बंगाल	11-मुर्शिदाबाद	23 अप्रैल, 2019 (मंगलवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक
दादरा और नागर हवेली	1-दादरा और नगर हवेली (अ.ज.जा.)	23 अप्रैल, 2019 (मंगलवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक
दमन एवं दीव	1-दमन और दीव	23 अप्रैल, 2019 (मंगलवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक

आदेश से,
सुमित मुखर्जी,
प्रधान सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग ।

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110 001/ Dated: the 28th March, 2019/7 Chaitra 1941 (Saka)

No. 464/EPS/2019(3)— **WHEREAS**, the President of India has, by notification issued under sub-section (2) of Section 14 of the Representation of People Act, 1951 (43 of 1951) and published in the Gazette of India on the 28th March 2019 (Thursday), been pleased to call upon each of the parliamentary constituencies, specified in column (2) of the Schedule below, in the States or Union Territories mentioned in column (1), of the Schedule to elect members to the House of the People, in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder;

2. **Now, therefore**, in pursuance of Sections 30 and 56 of the said Act, the Election Commission of India hereby-

- (A) **Appoints**, with respect to the said election, from each of the parliamentary constituencies specified in the said Schedule,
- the 4th April, 2019 (Thursday)**, as the last date for making nominations;
 - the 5th April, 2019 (Friday)**, as the date for scrutiny of nominations;
 - the 8th April, 2019 (Monday)**, as the last date for withdrawal of candidatures;
 - the date specified in column (3) of the SCHEDULE below, as the date on which a poll shall, if necessary, be taken in the parliamentary constituencies, specified in the corresponding entry in column (2) of the said Schedule; and
 - the 27th May, 2019 (Monday)**, as the date before which the election shall be completed in all the above mentioned parliamentary constituencies; and
- (B) **Fixes the hours** specified in column (4) of the said Schedule, as the hours during which the poll shall, if necessary, be taken in the constituencies, specified in the corresponding entry in column (2) of the said Schedule, on the date specified against such constituency in column (3) thereof, for the above election.

SCHEDULE
Parliamentary Constituencies, Dates and Hours of Poll
PHASE-III

State/Union Territory	Parliamentary Constituency/ Assembly Constituency Segment	Date of Poll(s)	Hours of Poll
(1)	(2)	(3)	(4)
ASSAM	4-Dhubri	23rd April, 2019 (Tuesday)	07:00 AM to 05:00 PM
	5-Kokrajhar (ST)	23rd April, 2019 (Tuesday)	07:00 AM to 05:00 PM
	6-Barpeta	23rd April, 2019 (Tuesday)	07:00 AM to 05:00 PM
	7-Gauhati	23rd April, 2019 (Tuesday)	07:00 AM to 05:00 PM
BIHAR	7-Jhanjharpur	23rd April, 2019 (Tuesday)	07:00 AM to 06:00 PM
	8-Supaul	23rd April, 2019 (Tuesday)	07:00 AM to 06:00 PM
	9-Araria	23rd April, 2019 (Tuesday)	07:00 AM to 06:00 PM
	13-Madhepura	23rd April, 2019 (Tuesday)	07:00 AM to 06:00 PM
	25-Khagaria	23rd April, 2019 (Tuesday)	07:00 AM to 06:00 PM
CHHATTISGARH	1-Surguja (ST) PC		
	8- Samri (ST) AC	23rd April, 2019 (Tuesday)	7:00 AM to 3:00 PM (For PS No. 124 Chunchuna and PS No. 125- Punnag) 7:00 AM to 6:00 PM (For Rest PS)
	4- Premnagar AC	23rd April, 2019 (Tuesday)	07:00 AM to 05:00 PM
	5- Bhatgaon AC	23rd April, 2019 (Tuesday)	07:00 AM to 05:00 PM
	6- Pratappur (ST) AC	23rd April, 2019 (Tuesday)	07:00 AM to 05:00 PM
	7- Ramanujganj (ST) AC	23rd April, 2019 (Tuesday)	07:00 AM to 05:00 PM
	9- Lundra (ST) AC	23rd April, 2019 (Tuesday)	07:00 AM to 05:00 PM
	10- Ambikapur AC	23rd April, 2019 (Tuesday)	07:00 AM to 05:00 PM
	11- Sitapur (ST) AC	23rd April, 2019 (Tuesday)	07:00 AM to 05:00 PM
	2-Raigarh (ST)	23rd April, 2019 (Tuesday)	07:00 AM to 05:00 PM
	3-Janjgir-Champa (SC)	23rd April, 2019 (Tuesday)	07:00 AM to 05:00 PM
	4-Korba	23rd April, 2019 (Tuesday)	07:00 AM to 05:00 PM
	5-Bilaspur	23rd April, 2019 (Tuesday)	07:00 AM to 05:00 PM
	7- Durg	23rd April, 2019 (Tuesday)	07:00 AM to 05:00 PM
	8-Raipur	23rd April, 2019 (Tuesday)	07:00 AM to 05:00 PM
GOA	1-North Goa	23rd April, 2019 (Tuesday)	07:00 AM to 06:00 PM
	2- South Goa	23rd April, 2019 (Tuesday)	07:00 AM to 06:00 PM
GUJARAT	1- Kachchh (SC)	23rd April, 2019 (Tuesday)	07:00 AM to 06:00 PM
	2-Banaskantha	23rd April, 2019 (Tuesday)	07:00 AM to 06:00 PM
	3- Patan	23rd April, 2019 (Tuesday)	07:00 AM to 06:00 PM
	4-Mahesana	23rd April, 2019 (Tuesday)	07:00 AM to 06:00 PM
	5-Sabarkantha	23rd April, 2019 (Tuesday)	07:00 AM to 06:00 PM
	6-Gandhinagar	23rd April, 2019 (Tuesday)	07:00 AM to 06:00 PM
	7-Ahmedabad East	23rd April, 2019 (Tuesday)	07:00 AM to 06:00 PM

State/Union Territory	Parliamentary Constituency/ Assembly Constituency Segment	Date of Poll(s)	Hours of Poll
(1)	(2)	(3)	(4)
GUJARAT	8-Ahmedabad West (SC)	23rd April, 2019 (Tuesday)	07:00 AM to 06:00 PM
	9-Surendranagar	23rd April, 2019 (Tuesday)	07:00 AM to 06:00 PM
	10- Rajkot	23rd April, 2019 (Tuesday)	07:00 AM to 06:00 PM
	11-Porbandar	23rd April, 2019 (Tuesday)	07:00 AM to 06:00 PM
	12- Jamnagar	23rd April, 2019 (Tuesday)	07:00 AM to 06:00 PM
	13- Junagadh	23rd April, 2019 (Tuesday)	07:00 AM to 06:00 PM
	14- Amreli	23rd April, 2019 (Tuesday)	07:00 AM to 06:00 PM
	15- Bhavnagar	23rd April, 2019 (Tuesday)	07:00 AM to 06:00 PM
	16- Anand	23rd April, 2019 (Tuesday)	07:00 AM to 06:00 PM
	17- Kheda	23rd April, 2019 (Tuesday)	07:00 AM to 06:00 PM
	18- Panchmahal	23rd April, 2019 (Tuesday)	07:00 AM to 06:00 PM
	19- Dahod (ST)	23rd April, 2019 (Tuesday)	07:00 AM to 06:00 PM
	20- Vadodara	23rd April, 2019 (Tuesday)	07:00 AM to 06:00 PM
	21-Chhota Udaipur(ST)	23rd April, 2019 (Tuesday)	07:00 AM to 06:00 PM
	22- Bharuch	23rd April, 2019 (Tuesday)	07:00 AM to 06:00 PM
	23- Bardoli (ST)	23rd April, 2019 (Tuesday)	07:00 AM to 06:00 PM
24- Surat	23rd April, 2019 (Tuesday)	07:00 AM to 06:00 PM	
25- Navsari	23rd April, 2019 (Tuesday)	07:00 AM to 06:00 PM	
26. Valsad (ST)	23rd April, 2019 (Tuesday)	07:00 AM to 06:00 PM	
JAMMU & KASHMIR	3-Anantnag PC		
	In all the Polling Stations falling in Anantnag District	23rd April, 2019 (Tuesday)	07:00 AM to 06:00 PM
	In all the Polling Stations falling in Kulgam District	29th April, 2019 (Monday)	07:00 AM to 06:00 PM
	In all the Polling Stations falling in Shopian and Pulwana Districts	6th May, 2019 (Monday)	07:00 AM to 06:00 PM
KARNATAKA	1-Chikkodi	23rd April, 2019 (Tuesday)	07:00 AM to 06:00 PM
	2-Belgaum	23rd April, 2019 (Tuesday)	07:00 AM to 06:00 PM
	3-Bagalkot	23rd April, 2019 (Tuesday)	07:00 AM to 06:00 PM
	4-Bijapur (SC)	23rd April, 2019 (Tuesday)	07:00 AM to 06:00 PM
	5-Gulbarga (SC)	23rd April, 2019 (Tuesday)	07:00 AM to 06:00 PM
	6-Raichur (ST)	23rd April, 2019 (Tuesday)	07:00 AM to 06:00 PM
	7-Bidar	23rd April, 2019 (Tuesday)	07:00 AM to 06:00 PM
	8-Koppal	23rd April, 2019 (Tuesday)	07:00 AM to 06:00 PM
	9-Bellary (ST)	23rd April, 2019 (Tuesday)	07:00 AM to 06:00 PM
	10-Haveri	23rd April, 2019 (Tuesday)	07:00 AM to 06:00 PM
	11-Dharwad	23rd April, 2019 (Tuesday)	07:00 AM to 06:00 PM
	12-Uttara Kannada	23rd April, 2019 (Tuesday)	07:00 AM to 06:00 PM
	13-Davanagere	23rd April, 2019 (Tuesday)	07:00 AM to 06:00 PM
	14-Shimoga	23rd April, 2019 (Tuesday)	07:00 AM to 06:00 PM

State/Union Territory	Parliamentary Constituency/ Assembly Constituency Segment	Date of Poll(s)	Hours of Poll
(1)	(2)	(3)	(4)
KERALA	1-Kasaragod	23rd April, 2019 (Tuesday)	07:00 AM to 06:00 PM
	2-Kannur	23rd April, 2019 (Tuesday)	07:00 AM to 06:00 PM
	3-Vadakara	23rd April, 2019 (Tuesday)	07:00 AM to 06:00 PM
	4-Wayanad	23rd April, 2019 (Tuesday)	07:00 AM to 06:00 PM
	5-Kozhikode	23rd April, 2019 (Tuesday)	07:00 AM to 06:00 PM
	6-Malappuram	23rd April, 2019 (Tuesday)	07:00 AM to 06:00 PM
	7-Ponnani	23rd April, 2019 (Tuesday)	07:00 AM to 06:00 PM
	8-Palakkad	23rd April, 2019 (Tuesday)	07:00 AM to 06:00 PM
	9-Alathur (SC)	23rd April, 2019 (Tuesday)	07:00 AM to 06:00 PM
	10-Thrissur	23rd April, 2019 (Tuesday)	07:00 AM to 06:00 PM
	11-Chalakydy	23rd April, 2019 (Tuesday)	07:00 AM to 06:00 PM
	12-Ernakulam	23rd April, 2019 (Tuesday)	07:00 AM to 06:00 PM
	13-Idukki	23rd April, 2019 (Tuesday)	07:00 AM to 06:00 PM
	14-Kottayam	23rd April, 2019 (Tuesday)	07:00 AM to 06:00 PM
	15-Alappuzha	23rd April, 2019 (Tuesday)	07:00 AM to 06:00 PM
	16-Mavelikkara (SC)	23rd April, 2019 (Tuesday)	07:00 AM to 06:00 PM
	17-Pathanamthitta	23rd April, 2019 (Tuesday)	07:00 AM to 06:00 PM
	18-Kollam	23rd April, 2019 (Tuesday)	07:00 AM to 06:00 PM
	19-Attingal	23rd April, 2019 (Tuesday)	07:00 AM to 06:00 PM
	20-Thiruvananthapuram	23rd April, 2019 (Tuesday)	07:00 AM to 06:00 PM
MAHARASHTRA	3-Jalgaon	23rd April, 2019 (Tuesday)	07:00 AM to 06:00 PM
	4-Raver	23rd April, 2019 (Tuesday)	07:00 AM to 06:00 PM
	18-Jalna	23rd April, 2019 (Tuesday)	07:00 AM to 06:00 PM
	19-Aurangabad	23rd April, 2019 (Tuesday)	07:00 AM to 06:00 PM
	32-Raigad	23rd April, 2019 (Tuesday)	07:00 AM to 06:00 PM
	34-Pune	23rd April, 2019 (Tuesday)	07:00 AM to 06:00 PM
	35-Baramati	23rd April, 2019 (Tuesday)	07:00 AM to 06:00 PM
	37-Ahmednagar	23rd April, 2019 (Tuesday)	07:00 AM to 06:00 PM
	43-Madha	23rd April, 2019 (Tuesday)	07:00 AM to 06:00 PM
	44-Sangli	23rd April, 2019 (Tuesday)	07:00 AM to 06:00 PM
	45-Satara	23rd April, 2019 (Tuesday)	07:00 AM to 06:00 PM
	46-Ratnagiri-Sindhudurg	23rd April, 2019 (Tuesday)	07:00 AM to 06:00 PM
	47-Kolhapur	23rd April, 2019 (Tuesday)	07:00 AM to 06:00 PM
48-Hatkanangle	23rd April, 2019 (Tuesday)	07:00 AM to 06:00 PM	
ODISHA	3-Sambalpur PC		
	15- Kuchinda (ST) AC	23rd April, 2019 (Tuesday)	07:00 AM to 04:00 PM
	18- Rairakhol AC	23rd April, 2019 (Tuesday)	07:00 AM to 04:00 PM
	19- Deogarh AC	23rd April, 2019 (Tuesday)	07:00 AM to 04:00 PM
	63- Athamallik AC	23rd April, 2019 (Tuesday)	07:00 AM to 04:00 PM
	16- Rengali (SC) AC	23rd April, 2019 (Tuesday)	07:00 AM to 06:00 PM
	17- Sambalpur AC	23rd April, 2019 (Tuesday)	07:00 AM to 06:00 PM
	62- Chhendipada (SC) AC	23rd April, 2019 (Tuesday)	07:00 AM to 06:00 PM
	4-Keonjhar (ST) PC		
	25- Champua AC	23rd April, 2019 (Tuesday)	07:00 AM to 04:00 PM
20- Telkoi (ST) AC	23rd April, 2019 (Tuesday)	07:00 AM to 06:00 PM	

State/Union Territory	Parliamentary Constituency/ Assembly Constituency Segment	Date of Poll(s)	Hours of Poll	
(1)	(2)	(3)	(4)	
ODISHA	21- Ghasipura AC	23rd April, 2019 (Tuesday)	07:00 AM to 06:00 PM	
	22- Anandapur (SC) AC	23rd April, 2019 (Tuesday)	07:00 AM to 06:00 PM	
	23-Patna (ST) AC	23rd April, 2019 (Tuesday)	07:00 AM to 06:00 PM	
	24- Keonjhar (ST) AC	23rd April, 2019 (Tuesday)	07:00 AM to 06:00 PM	
	30- Karanjia (ST) AC	23rd April, 2019 (Tuesday)	07:00 AM to 06:00 PM	
	9-Dhenkanal PC			
	59- Pallahara AC	23rd April, 2019 (Tuesday)	07:00 AM to 04:00 PM	
	61- Angul AC	23rd April, 2019 (Tuesday)	07:00 AM to 04:00 PM	
	55- Dhenkanal AC	23rd April, 2019 (Tuesday)	07:00 AM to 06:00 PM	
	56- Hindol (SC) AC	23rd April, 2019 (Tuesday)	07:00 AM to 06:00 PM	
	57- Kamakhyanagar AC	23rd April, 2019 (Tuesday)	07:00 AM to 06:00 PM	
	58- Parjanga AC	23rd April, 2019 (Tuesday)	07:00 AM to 06:00 PM	
	60- Talcher AC	23rd April, 2019 (Tuesday)	07:00 AM to 06:00 PM	
	14-Cuttack PC	23rd April, 2019 (Tuesday)	07:00 AM to 06:00 PM	
	17-Puri	23rd April, 2019 (Tuesday)	07:00 AM to 06:00 PM	
	18-Bhubaneswar	23rd April, 2019 (Tuesday)	07:00 AM to 06:00 PM	
	UTTAR PRADESH	6-Moradabad	23rd April, 2019 (Tuesday)	07:00 AM to 06:00 PM
7-Rampur		23rd April, 2019 (Tuesday)	07:00 AM to 06:00 PM	
8-Sambhal		23rd April, 2019 (Tuesday)	07:00 AM to 06:00 PM	
20-Firozabad		23rd April, 2019 (Tuesday)	07:00 AM to 06:00 PM	
21-Mainpuri		23rd April, 2019 (Tuesday)	07:00 AM to 06:00 PM	
22-Etah		23rd April, 2019 (Tuesday)	07:00 AM to 06:00 PM	
23-Badaun		23rd April, 2019 (Tuesday)	07:00 AM to 06:00 PM	
24-Aonla		23rd April, 2019 (Tuesday)	07:00 AM to 06:00 PM	
25-Bareilly		23rd April, 2019 (Tuesday)	07:00 AM to 06:00 PM	
26-Pilibhit		23rd April, 2019 (Tuesday)	07:00 AM to 06:00 PM	
WEST BENGAL	6-Balurghat	23rd April, 2019 (Tuesday)	07:00 AM to 06:00 PM	
	7-Maldaha Uttar	23rd April, 2019 (Tuesday)	07:00 AM to 06:00 PM	
	8-Maldaha Dakshin	23rd April, 2019 (Tuesday)	07:00 AM to 06:00 PM	
	9-Jangipur	23rd April, 2019 (Tuesday)	07:00 AM to 06:00 PM	
	11-Murshidabad	23rd April, 2019 (Tuesday)	07:00 AM to 06:00 PM	
DADRA AND NAGAR HAVELI	1-Dadra and Nagar Haveli (ST)	23rd April, 2019 (Tuesday)	07:00 AM to 06:00 PM	
DAMAN & DIU	1-Daman & Diu	23rd April, 2019 (Tuesday)	07:00 AM to 06:00 PM	

By order,
Sumit Mukherjee,
 Principal Secretary to the
 Election Commission of India.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
 बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
 बिहार गजट (असाधारण) 493-571+50 डी0टी0पी0।
 Website: <http://egazette.bih.nic.in>